



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 1979/आषाढ़ 16, 1901

No. 224]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 1979/ASADHA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1979

सा. का. नि. 439 (अ).—मूल नियम 45 जिसमें दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती तथा सेवा शर्तों संबंधी आदेश संख्या 185 द्वारा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों पर लागू किया गया था, द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, लोक सभा के अध्यक्ष एतद्द्वारा लोक सभा सचिवालय (आवास व आबंटन नियम, 1974 में अग्रतर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों के लोक सभा सचिवालय (आवास व आबंटन) संशोधन नियम, 1979 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. लोक सभा सचिवालय (आवास का आबंटन) नियम, 1974 में,—

(एक) नियम 9 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु, यदि पहले का आवास बाद की तिथि तक, जैसा पहले बताया गया है, खाली नहीं किया जाता, तो अधिकारी

को आवास के इस्तेमाल और कब्जा, सेवाओं, फ्रीचर और बगीचा के शुल्क के लिये, उस तिथि से जिस तिथि से वह बाद के आवास का कब्जा लेता है, लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई बाजार लाइसेंस फीस के बराबर हर्जाना देना होगा।”

(दो) नियम 17 में—

(क) “लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर शब्दों के बाद “उस लाइसेंस फीस का, जो वह दे रहा है, दोगुना, जो भी अधिक है” शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे,

(ख) परन्तुक में “जो भी अधिक हो” शब्दों के स्थान पर “उस लाइसेंस फीस का जो वह दे रहा है, दोगुना, जो भी अधिक हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[एक. संख्या 1/18/79/ए एन-2]

अवलार सिंह रिखी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1979

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by Fundamental Rule 45, as made applicable to the officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of

Service Order No. 185, dated the 19th December, 1957, the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following Rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974 namely :—

1. (1) These rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974,—

(i) to sub-rule (2) of rule 9, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that if the former residence is not vacated by the subsequent date as aforesaid, the officer will be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and

garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by the Lok Sabha Secretariat from time to time, with effect from the date he takes possession of the latter residence.”;

(ii) in rule 17—

(a) after the words “by the Lok Sabha Secretariat from time to time”, the words “or twice the licence fee he was paying, whichever is higher” shall be inserted;

(b) in the proviso, for the words “whichever is higher”, the words “or twice the licence fee he was paying, whichever is highest” shall be substituted.

[F. No. 1/18/79/AN-II]

AVTAR SINGH RIKHY, Secy.